

ATTENTION SHOULD BE GIVEN FOR "FIVE FREEDOMS OF HONEY BEES"

मधुमक्खियों की निम्नलिखित पांच स्वतंत्रताओं का ध्यान रखना चाहिए:

- 1. Freedom from hunger and thirst (food and water/arrangements)**
भूख प्यास से स्वतंत्रता (भोजन और पानी की व्यवस्था)
- 2. Freedom from discomfort (shelter)**
असुविधा से स्वतंत्रता (आश्रय)
- 3. Freedom from pain, injury and disease (medical care)**
दर्द चोट और बीमारी से स्वतंत्रता (चिकित्सा देखभाल)
- 4. Freedom to express normal behaviour(exercise)**
सामान्य व्यवहार करने की आजादी (अभ्यास)
- 5. Freedom from fear and distress (love and understanding)**
भय और परेशानी से स्वतंत्रता (प्यार और समझदारी/अच्छा व्यवहार)